



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 1976/श्रावण 1, 1898

No. 334]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1976/SRAVANA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ परा भी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Irrigation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July 1976

**S.O. 492(E).**—Whereas the Central Government had, by a notification under section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), constituted the Krishna Water Disputes Tribunal to adjudicate upon the water dispute regarding inter-State river, Krishna, and the river valley thereof vide notification of the Government of India, Ministry of Irrigation and Power, No. S.O. 1419, dated the 10th April, 1969;

And Whereas the said Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government, under sub-section (2) of section 5 of the said Act, a report setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it;

And Whereas upon consideration of the said decision, the Central Government and the Governments of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra made references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act and the Tribunal, on such references, forwarded to the Central Government under that sub-section a further report giving such explanations and guidance as it deemed fit;

And Whereas the decision of the said Tribunal as modified by the explanation and guidance given in its further report was published by the Central Government as required by section 6 of the said Act, vide notification of the Government of India, Ministry of

Agriculture and Irrigation (Department of Irrigation), No. S.O. 384(E), dated the 31st May, 1976;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act, the Central Government hereby dissolves the said Tribunal.

[No. F. 2/18/76-WD]

C. C. PATEL, Addl. Secy.

### कृषि और सिंचाई मंत्रालय

#### (सिंचाई विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1976

का० खा० 492(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रियक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा, अन्तर्राष्ट्रियक नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटी की बाबत जल विवाद का अधिनियम करने के लिए, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० खा० 1419, तारीख 10 अप्रैल, 1969 के अनुसार, कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया था ;

और उक्त अधिकरण ने उसे निर्दिष्ट विषयों के संबंध में अन्वेषण किया था तथा अपनी एक रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अप्रेषित की थी जिसमें वे तथ्य वर्णित हैं जो उसके समक्ष आए थे और जिसमें उसे निर्दिष्ट विषयों पर उसका विनिश्चय दिया गया है ;

और उक्त विनिश्चय पर विचार करके, केन्द्रीय सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, उक्त अधिकरण को कतिपय विषय निर्दिष्ट किए थे और इस प्रकार निर्दिष्ट विषयों पर अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा के अधीन एक और रिपोर्ट अप्रेषित की है जिसमें ऐसे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन दिए गए हैं जो उसने ठीक समझे हैं ;

और उक्त अधिकरण की अपर रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शन द्वारा यथा उपान्तरित, अधिकरण के विनिश्चय को केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) की अधिसूचना सं० का० खा० 384 (अ), तारीख 31 मई, 1976 के अन्तर्गत प्रकाशित कर दिया था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिकरण को विघटित करती है ।

[सं० का० 2/18/76-इक्यू० डी०]

ख० छो० पटल, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976